



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 04/एस०टी०-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, फरवरी, 2018 के प्रथम दिन को हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 80/एसटी-2, दिनांक 5 सितंबर, 2017 की क्रम संख्या 4 और 5 के उपबंधों को लागू करने की तिथि के रूप में नियत करते हैं।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th January, 2018

No. 04/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby appoints the 1st day of February, 2018 as the date from which the provisions of serial number 4 and 5 of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 80/ST-2, dated the 5th September, 2017, shall come into force.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

55902—C.S.—H.G.P., Chd.